

B. C. Power Controls Ltd.

Importer • Whole Sale Trader • Non Ferrous Metals

CIN : L31300DL2008PLC179414

Dt: 10.02.2026

To
BSE Ltd.
Regd. Office: 25thFloor,
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai -400 001

Sub: Submission of Newspaper Publication for Financial Results of Quarter ended December 31, 2025

Ref: Scrip Code-537766, ISIN No- INE905P01028

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper copies of Extract of Standalone Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December 2025, published in following newspapers on 10th February 2026:

1. Financial Express (All Edition) – English
2. Jansatta (Delhi Edition)- Hindi

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For B.C. POWER CONTROLS LIMITED

(DIMPLE MALIK)
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
M.NO.: ACS-69221

Encl: As above

ABANS FINANCIAL SERVICES LIMITED

(Formerly known as Abans Holdings Limited)

CIN: L74900MH2009PLC231660

Registered Office: 36, 37, 38A, Floor 3, Nariman Bhavan, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Phone No.: +91-022-61790000 | Website: www.abansfinserv.com | Email Id: compliance@abansfinserv.com

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹ in lakhs except Per Share data)

Particulars	Quarter ended		Nine months ended	Year ended
	31/12/2025	31/12/2024		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Revenue from operations	6,49,461.44	1,26,014.18	5,16,529.07	3,28,068.17
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,583.25	3,524.98	11,651.70	13,235.10
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,583.25	3,524.98	11,651.70	13,235.10
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,431.03	2,691.61	10,884.92	10,851.06
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,163.81	4,020.41	14,188.66	11,814.32
Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2 per share)	1,013.18	1,011.23	1,013.18	1,011.52
Total Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (including non-controlling interest)	-	-	-	1,06,394.50
Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:	6.78	5.36	21.51	21.56
2. Diluted:	6.78	5.31	21.51	21.44

- Notes:**
- The above consolidated unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on February 09, 2026.
 - During the quarter ended December 31, 2025, the group has created necessary provision towards employee benefit liability based on certain estimates and assumptions, pursuant to issuance of the New Labour Codes. The supporting rules and certain key clarifications are awaited, and the interpretations and industry practices are still developing. The above impact estimates will be re-assessed and finalised based on the final rules, industry practices and any revisions to the Company's staff emoluments from time to time.
 - Revenue from operations, profit/ (loss) before tax and profit/ (loss) for the period on standalone basis are given below:

Particulars	Quarter ended		Nine months ended	Year ended
	31/12/2025	31/12/2024		
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Revenue from operations	876.52	2,094.63	1,085.21	3,074.79
Profit/(Loss) before tax	683.67	1,882.98	359.58	2,006.57
Profit/(Loss) after tax	592.33	1,407.07	344.33	1,497.10
Total Comprehensive Income for the period	605.97	1,407.07	358.46	1,496.36

- These consolidated unaudited financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards 34 - Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India with the requirements of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results (standalone and consolidated) filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock-exchanges website i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on Company's website (www.abansfinserv.com). The same can be accessed by scanning the QR code below:



For Abans Financial Services Limited
(Formerly known as Abans Holdings Limited)
Sd/-
Nirbhay Vassa
(Whole-Time Director & Chief Financial Officer)
DIN: 08011853

Place: Mumbai

Date: February 09, 2026

B.C. POWER CONTROLS LIMITED

CIN: L31300DL2008PLC179414

Regd. Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005

Website: www.bcpowercontrols.com E-mail: team@bonlogroup.com Tel: 011-47532795

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Period Ended December 31, 2025

(₹ in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months ended	Nine Months ended	Year Ended
		31.12.2025	30.09.2025			
		(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	4,572.83	3,255.79	1,973.81	9,519.50	7,654.67
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	114.07	154.89	51.09	283.60	150.73
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	114.07	154.89	51.09	283.60	150.73
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.36	115.93	38.23	212.20	112.75
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	85.36	115.93	38.23	212.20	112.75
6	Equity Share Capital	1,396.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			2748.86		
8	Earnings Per Share (of ₹ 02/- each) (for continuing and discontinued operations)-			2		
(a) Basic (in ₹)	0.12	0.17	0.05	0.30	0.16	0.11
(b) Diluted (in ₹)	0.12	0.17	0.05	0.30	0.16	0.11

- Notes:**
- The above is an extract of the detailed format of format of quarterly/year ended standalone financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of these financial results are available on the stock exchange websites, (URL- www.bseindia.com) and also on website of the Company- www.bcpowercontrols.com



For and on behalf of the Board of Directors
For B.C. POWER CONTROLS LIMITED
Sd/-
CHANDER SHEKHAR JAIN
MANAGING DIRECTOR
DIN-08639491

Place: New Delhi

Date: 09.02.2026

JK PAPER LIMITED

CIN: L21010GJ1960PLC018099, Website: www.jkpaper.com

Regd. Office: P.O. Central Pulp Mills - 394 660, Fort Songadh, Distt. Tapi, Gujarat

Admin. Office: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002

Phone: 011-6600 1132, 2331 1112-5, E-mail ID: sharesjkpaper@jkmil.com

NOTICE

Special Window for Re-lodgment of Transfer Requests of Physical Securities

Investors of the Company are hereby informed that pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-PoD/1/3750/2026 dated 30th January, 2026, a special window has been re-opened for a period of one year from **5th February, 2026 to 4th February, 2027** to facilitate transfer requests of physical securities.

This facility is available for Transfer Deeds which were originally lodged before 1st April, 2019 but were rejected/ returned/ not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise. The Securities re-lodged for transfer during the above window will be processed only in dematerialized form and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such Securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.

Eligible Investors who have missed the earlier deadline of 6th January, 2026 for re-lodgment of transfer documents, are encouraged to avail advantage of another opportunity by furnishing the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA)- MCS Share Transfer Agent Ltd., 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020; Phone Nos. 011-41406149/41406150/41406151 and Email: admin@mcsregistrars.com. Transfer requests submitted after 4th February, 2027 will not be accepted by the Company/RTA.

The aforesaid information is also being made available on the website of the Company at <https://www.jkpaper.com/>

For JK Paper Limited
Sd/-
Pradeep Joshi
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 10.02.2026

Place: New Delhi

For Kind Attention of Securityholders: Securityholders holding securities in Physical form are requested to dematerialize their securities/complete their KYC (Email address, PAN, Bank A/c details etc.) with the Company's RTA.

FOCUS LIGHTING AND FIXTURES LIMITED

CIN: L31500MH2005PLC155278

Registered Office: 1007-1010, Corporate Avenue Wing A, Sonawala Road, Near Udyog Bhawan, Goregaon (East), Mumbai - 400063, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 2686 5671-6; E-mail: info@pluslighttech.com; Website: www.focuslightingandfixtures.com.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2025

Sr. No.	Particulars	Consolidated						Standalone					
		(Rs.in Lakhs)						(Rs.in Lakhs)					
		Quarter ended		Nine Month Ended		Year Ended		Quarter ended		Nine Month Ended		Year Ended	
31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025	31-12-2025	30-09-2025	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2024	31-03-2025		
Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited		
1	Total Income from Operations	3,850.86	4,935.18	4,321.04	12,997.36	14,438.70	18,619.43	3,703.46	4,540.45	4,633.67	12,347.40	12,208.28	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(85.71)	230.39	177.62	407.98	1,889.70	1,996.41	(8.11)	218.80	769.42	413.38	1,714.12	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(97.93)	230.39	177.62	395.76	1,889.70	1,996.41	(20.32)	218.80	769.42	401.16	1,714.12	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(140.22)	171.08	0.31	246.64	1,401.57	1,519.16	(62.12)	161.02	593.04	254.06	1,285.90	
5	Profit / (Loss) from discontinuing operations												
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(144.94)	171.28	2.24	248.58	1,408.87	1,520.36	(68.05)	161.02	593.04	248.13	1,285.90	
7	Equity Share Capital	1,344.59	1,342.72	1,334.19	1,344.59	1,309.21	1,334.19	1,344.59	1,342.72	1,334.19	1,344.59	1,334.19	
8	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						12,685.87					10,218.84	
9	Earnings Per Share (Face Value per Equity Share) (not annualized) (in Rupees)	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	
(i) Basic	(0.22)	0.26	0.003	0.37	2.11	2.28	(0.10)	0.24	0.89	0.37	1.93	2.15	
(ii) Diluted	(0.21)	0.25	0.003	0.36	2.08	2.24	(0.10)	0.24	0.88	0.36	1.90	2.11	

Notes - Standalone & Consolidated

- The Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on February 09, 2026.
- The Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standard (INDAS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder, other generally accepted accounting principles and Regulations 33 issued by Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.
- Pursuant to resolutions passed by the Board of Directors dated 11.12.2019 and by the Shareholders dated 30.12.2019 through Postal Ballot, the Company has approved the "Focus Lighting and Fixtures Limited- Employees Stock Option Plan 2019" which consists of 5,00,000 options of face value of Rs. 10/- each (Post Sub-Division 25,00,000 Options of face value of Rs. 2/- each w.e.f. 06.10.2023) in the form of Equity Shares to be exercisable by the eligible employees of the Company. As per the ESOP Plan, the shares will vest in the hands of employees in the tranches of 25%, 35% and 40% from the end of 12 months, 24 months, and 36 months, respectively from the date of grant. Accordingly, 22,62,500 equity shares stood vested as on December 31, 2025. During the quarter under review, the Company allotted 1,91,875 ESOP equity shares to FLFL Employees' Welfare Trust on November 12, 2025. Cumulatively, the Company has allotted 24,71,875 equity shares to FLFL Employees' Welfare Trust up to the period ended December 31, 2025. The employees have subscribed to 22,56,500 equity shares, and the balance 2,15,375 equity shares are held by the FLFL Employees' Welfare Trust.
- On November 21, 2025, the Government of India notified four Labour Codes- the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020- consolidating 29 existing labour laws. The Ministry of Labour & Employment published draft Central Rules and FAQs to enable assessment of the financial impact due to changes in regulations. The Company has assessed and disclosed the incremental impact of these changes on the basis of advice of labour consultant and the best information available, consistent with the guidance provided by the Institute of Chartered Accountants of India. Considering the materiality and regulatory-driven, non-recurring nature of this impact, the Company has presented such incremental impact under "Exceptional items" for the quarter and nine months ended December 31, 2025. The incremental impact consists of gratuity liability of Rs. 12.21 lakhs which primarily arises due to change in wage definition. The Company continues to monitor the finalisation of Central / State Rules and clarifications from the Government on other aspects of the Labour Code and would provide appropriate accounting effect on the basis of such developments as needed.
- The paid-up capital of 6,72,29,575 equity shares (6,74,44,950 equity shares less 2,15,375 equity shares) is net of 2,15,375 equity shares allotted to the FLFL Employees' Welfare Trust pending exercise of options by the employees.
- Statutory Auditor, Patwa and Shah has carried out limited review on this Statement and expressed unmodified opinion on the financial statements.
- The company is primarily engaged in direct and contract manufacturing and accordingly company has only one reportable segment viz. manufacturing of products and therefore segment details are not provided.
- As on December 31, 2025, Focus Lighting And Fixtures Limited has two foreign Wholly-Owned Subsidiaries named Focus Lighting And Fixtures PTE Ltd and Plus Light Tech F.Z.E. and one Indian Wholly-Owned Subsidiary, Xandos Lighting And Fixtures Private Limited. Thus the consolidated financial results include financials of all three Wholly-owned Subsidiary Companies.
- The figures of the previous year and/ or period(s) have been regrouped wherever necessary.



Place: Mumbai

Date: February 09, 2026

By order of the Board of Directors
Focus Lighting and Fixtures Limited
Sd/-
Mr. Amit Sheth
Managing Director
DIN 01468052



FASHIONING POSSIBILITIES

ARVIND LIMITED

(CIN: L17119GJ1931PLC000093)

Regd. Office: Naroda Road, Ahmedabad - 382345.

Phone: 079-68268000, Email: investor@arvind.in, Website: www.arvind.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT (THROUGH REMOTE E-VOTING)

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read together with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") as amended from time to time and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, latest amended by General Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 ("SEBI Circular") and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), that the Company is seeking approval of members for the special businesses as set out in the postal ballot notice dated 19th December, 2025 ("Postal Ballot Notice"). Members are informed that the Postal Ballot Notice along with relevant Explanatory Statement and e-voting instructions for remote e-voting have been sent only by E-mail and completed on Monday, 9th February, 2026 to members who have registered their email addresses with the Company or Depository Participant(s) on their registered e-mail addresses as on the cut-off date i.e. Friday, 6th February, 2026.

The Postal Ballot Notice has been sent to email addresses of those members whose names appeared in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from the National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, 6th February, 2026 ("the Cut - Off Date"). Accordingly, physical copy of the notice along with postal ballot form and prepaid business reply envelope have not been sent to the members for this postal ballot and members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system. The voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of members as on the Cut - Off Date. A person who is not a member as on the Cut - Off Date should treat this notice for information purpose only.

Members whose email addresses were not registered with the Company or Depository Participant(s) as on the Cut - Off Date, are requested to register their email addresses by sending an email citing subject line as "AL - Postal Ballot - Registration of e-mail Ids" to our RTA i.e. MUFG Intime India Private Limited at ahmedabad@in.mpgms.mufg.com or to the Company at investor@arvind.in with name of registered shareholder(s), folio number(s) / DP Id(s) / Client Id(s) and No. of shares held to enable them to exercise their vote(s) on the special businesses as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-voting facility provided by NSDL. For details of the manner of casting voting through remote e-voting by the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company or Depository Participant(s), members are requested to refer instruction no. 7 of the Postal Ballot Notice.

In accordance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Rules, the General Circulars and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing facility to its members to exercise their votes electronically in respect of items enlisted in the Postal Ballot Notice through the remote e-voting facility provided by NSDL.

Details of Postal Ballot Schedule:

Sr. No.	Particulars	Schedule
1	Date of Completion of dispatch of postal ballot notice	Monday, 9th February, 2026
2	Cut - off date for identification of voting rights of the members	Friday, 6th February, 2026
3	Date and time of commencement of remote e-voting	Tuesday, 10th February, 2026 [09:00 a.m.]
4	Date and time of end of remote e-voting	Wednesday, 11th March, 2026 [05:00 p.m.]
5	Remote e-voting shall not be allowed beyond	Wednesday, 11th March, 2026 [05:00 p.m.]
6	Scrutinizer	Mr. Hitesh Buch, (CP No.: 8195), Proprietor, Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries
7	Contact details of the person at NSDL responsible to address the grievances connected to e-voting	Ms. Pallavi Mahtre, Manager, email: evoting@nsdl.com or call at Toll free No.: 022-4886 7000 /022-2499 7000

Members are informed that: (1) Members can vote only through remote e-voting facility provided by NSDL as no physical ballot form is being dispatched or will be accepted by the Company. (2) A member who has not received Postal Ballot Notice on their registered email address along with relevant Explanatory Statement and e-Voting instructions for remote e-Voting may obtain the same by sending an email to our RTA i.e. MUFG Intime India Private Limited at ahmedabad@in.mpgms.mufg.com and to the Company at investor@arvind.in. (3) A copy of the Postal Ballot Notice and the procedure for registration of email addresses of members are also available on the website of the Company at www.arvind.com. The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement is also available on website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) ("Stock Exchanges") where the equity shares of the Company are listed). (4) Mr. Hitesh Buch, (CP No.: 8195), Proprietor, Hitesh Buch & Associates, Practicing Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner. (5) For any queries/grievances, in relation to voting through electronic means, members may contact Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited at ahmedabad@in.mpgms.mufg.com, the Scrutinizer at pcs.buchassociates@gmail.com or the Company at investor@arvind.in. (6) The result of the voting by Postal Ballot (through remote e-voting) shall be declared within 2 working days from the closure of e-voting. The results declared and the Scrutinizer's Report shall be made available at the Registered Office of the Company and on Company's website and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com besides being communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

By order of the Board

For Arvind Limited

Sd/-

Jayesh Shah

Wholtime Director & Group CFO

DIN: 0008349

Place: Ahmedabad

Date: 10th February, 2026

THE BUSINESS DAILY

FOR DAILY BUSINESS

बी.सी. पावर कंट्रोलस लिमिटेड

सीआईएन: L31300DL2008PLC179414

पंजी. कार्यालय: 7ए/39, इन्फ्रास्ट्रक्चर चर्चा मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

वेबसाइट: www.bcpowercontrols.com ई-मेल: team@bonlongroup.com फोन: 011-47532792-95

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

(सभी श्रेणियाँ करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2025	समाप्त तिमाही 30.09.2025	समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त तिमाही 31.12.2025	समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त तिमाही 31.03.2025
		(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)
1	परिचालन से कुल आय	4,572.83	3,255.79	1,973.81	9,519.50	7,654.67	9,619.68
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	114.07	154.89	51.09	283.60	150.73	105.68
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	114.07	154.89	51.09	283.60	150.73	105.68
4	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	85.36	115.93	38.23	212.20	112.75	79.04
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर के बाद) व्यापक लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल हैं]	85.36	115.93	38.23	212.20	112.75	79.04
6	इनिशियल शेयर मुंजी	1,396.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00
7	आरंभित (पुनर्मुल्यांकन आरंभित छोड़कर) जैसा पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन एन में दर्शाया गया है			2748.86			
8	प्रति शेयर आय (प्रति ₹ 02/-) (जारी और परिसमाप्त परिचालन हेतु) - (अ) मूल (₹ में) (ब) परिसमाप्त (₹ में)	0.12	0.17	0.05	0.30	0.16	0.11

नोट्स: उपरोक्त तबू (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दायर स्टैंडअलोन अलेक्जेंडरिबिलिटी वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का अंश है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (URL: www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.bcpowercontrols.com) पर उपलब्ध है।

पूर्ण वित्तीय परिणामों के लिए स्कैन करें



निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से हस्ता./- बंध शेखर जैन प्रबंध निदेशक सीआईएन-08639491

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 09.02.2026

ओमकार एसेट्स रिस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

कार्यकेंद्र कार्यालय :- सी/515, कनकिया जिलियन, एलएबीएड रोड तथा सीएस्टी रोड का जंक्शन, बीबीसी अमेरिसी, निक्ट इंडियावेयर, कलीना, कुर्ली (तेर), मुंबई-400070

परिशिष्ट 4 विवरण 8 (1) कक्षा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि ओमकार एसेट्स रिस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ओआरपीएल), एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है, और भारतीय रिजर्व बैंक (अरबीआई) के साथ वित्तीय आसिधियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुखा हित प्राप्त अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (संशोधित अधिनियम, 2002) की धारा 3 के तहत एक आसि पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में विधिवत पंजीकृत है। यह कि समुद्रदेशक (कंपनी रजिस्ट्रार केंद्रित लिमिटेड) में समुद्रदेशक और ओआरपीएल के बीच 25 दिसंबर 2025 को हुए समुद्रदेशक अनुबंध के माध्यम से उक्त वित्तीय आसिधियों, प्रतिभूत आसिधियों गारंटी और किसी भी अन्य अंतर्निहित प्रतिभूति हित के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वत्वधिकार, हित और उक्त आसिधियों जिन्हें आगे वित्तीय संपत्तियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वत्वधिकार और हितों को ओमकार पीएस19/2025-26 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्य करते हुए ओमकार एसेट्स रिस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में समुद्रदेशक कर दिया है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी की है। कर्जदार(री)/सह-कर्जदार(री)/गारंटर(री) द्वारा राशि चुकाने पर, कर्जदार(री)/सह-कर्जदार(री)/गारंटर(री) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि ओमकार एसेट्स रिस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में समुद्रदेशक कर दिया है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदात शक्तियों को यह सूचना दी जाती है कि ओमकार एसेट्स रिस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कार्य करते हुए ओमकार पीएस19/2025-26 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने वाले ओआरपीएल के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का ध्यान प्रतिभूत आसि चुकाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (b) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार (री)/गारंटर (री) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आसि का वर्णन (अचल संपत्ति)	कक्षा सूचना की तिथि
1.	(श्रेण खता संख्या LNMEAGR000093407 (पुराना) 8090000542938 (नया) आगरा शाखा) विजेन्द्र पाल सिंह (कर्जदार) सुनीता देवी (सह-कर्जदार)	01-10-2025 र. 8,93,092/-	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति भूमि और भवन, खता संख्या 62 मीजा - सैलत तहसील फिरोजाबाद और जिला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश - 283203, क्षेत्रफल 55.8 वर्ग मीटर है, जिसकी सीमा इस प्रकार है:- पूर्व-मलियाना का प्लॉट, पश्चिम-रस्ता 12 फीट, उत्तर-संपत्ति का शेज मांग; और दक्षिण-निधलेशा का प्लॉट	06-02-2026

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)

वास्तु ओमकार एसेट्स रिस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(ओमकार पीएस19/2025-26 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)

हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: निवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125008 (हरियाणा)

ईमेल: info@hisarmetal.com; वेबसाइट: www.hisarmetal.com

फोन: (01662) 220607, 220367, 220738 फैक्स: 91-1662-220265 CIN: L74899HR1990PLC0908937

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अन-ऑफसेट वित्तीय परिणामों का उद्घरण

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2025	समाप्त तिमाही 30.09.2025	समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त तिमाही 31.12.2025	समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त तिमाही 31.03.2025
	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)	(अन-ऑफसेट)
प्रधानन से कुल आय (अन-ऑफसेट)	6840	5987	5707	19960	18575	24556
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	180	114	109	350	374	427
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	180	114	109	350	374	427
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	135	85	82	262	280	318
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	135	85	82	262	280	318
इनिशियल शेयर मुंजी	540	540	540	540	540	540
शिखर (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि अंकेषित बेलेंस शीट में दिखाया गया है						5741
प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) (भाव, और बंध प्रदानों के लिए)	2.50	1.57	1.52	4.85	5.19	5.89

नोट: उपरोक्त तबू (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज की गई वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है। वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है। वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है। वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्घरण है।

पूर्ण वित्तीय परिणामों के लिए स्कैन करें

स्थान: हिसार (हरियाणा) दिनांक: 09 फरवरी, 2026



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्यकेंद्र कार्यालय: चोला अवेन्यू, सुपर भी, सी 54 एवं 55, 4, थिरु वी, का इंडस्ट्रियल एस्टेट, चिन्नी, चेन्नई-600032

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आसिधियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आसिधियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री का 30 दिन का नोटिस

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम (1) में दर्शाए गए कर्जदार(री) और गारंटर(री) को सूचित किया जाता है कि नीचे कॉलम (सी) में वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियाँ) प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में बिक्री/आसि है, जिसका प्रवर्तित/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कॉलम (डी) में वर्णित अनुसार लिया गया है, नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है वहाँ है" पर बेचा जाएगा -

एतद्वारा कर्जदार/बैंक/दाता(सी)/संबंधित कर्जदार/बैंक/दाता(सी)/(अन-विवरण) के कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिभूति (ज्ञात या अज्ञात), निष्ठादक(री), प्रशासक(री), उत्तराधिकारी(उत्तराधिकारियों) और समनुदेशी(समनुदेशियों), यथास्थिति, के जैसा कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8(6) के तहत कॉलम (ए) में निर्दिष्ट है, को सूचित किया जा रहा है।

बिक्री के विस्तृत विवरणों और शर्तों के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड लेनदार की वेबसाइट यानी <https://www.cholamandalam.com> और www.auctionfocus.in पर दिया गया लिंक देखें।

क्र. सं.	(ए) श्रेण खता संख्या LNMEMT1000054432 (पुराना) 803000058897 (नया) कर्जदार(री)/गारंटर(री) का नाम	(बी) बकाय राशि को चुकाने की जाती है (प्रतिभूत आग)	(सी) अचल संपत्ति/प्रतिभूत आसि का वर्णन	(डी) संपत्ति का वर्णन	(ई) ई-बिक्री की तिथि एवं समय	(जी) ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	श्रेण खता संख्या: LAP3DOA000098724 1. श्री/श्रीमती प्रीति देवी 2. श्री/श्रीमती राजेश बेनीमाधव कम्पनी का पता: 30 निकट गल्लू स्कूल, गोला वार्ड, सुन्दरपुर देवरिया, निक्ट एस्टीडी मीडियम स्कूल, देवरिया, उत्तर प्रदेश-274204 अन्य पता: पच्चा हाउस, वार्ड नंबर - 14, नगर पंचायत सुन्दरपुर टाटा नगर टिकार परसना निराला तहसील सुन्दरपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश-274204	रु. 33,58,000/- (रुपये बीस लाख आठ हजार आठ सौ चार मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय भवन, कुल क्षेत्रफल 730 वर्ग फीट, खस्ता नंबर 3118, जो नगर पंचायत सुन्दरपुर, टाटा नगर टिकार, परसना-निराला, तहसील सुन्दरपुर, जिला देवरिया, पिन कोड-274204 उत्तर प्रदेश में स्थित है। बीहदरी निगमावली :- पूर्व - 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क और शिथ प्रदात, पश्चिम - कैद माय निगम का मकान, उत्तर: कुंजेश का मकान, दक्षिण - गली	रु. 33,58,000/- (रुपये तीस लाख बीस हजार आठ सौ चार मात्र)	01-10-2025 र. 15,68,366/-	18-03-2026 अर्थात् 02.00 बजे से आगे 04.00 बजे तक निराला प्रदातके 5 दिनों के अंतर्गत प्रतिभूत (कर से मांग)

1. निरीक्षण की तिथि एवं समय: 16-03-2026
2. व्यापक बोली बुद्धि राशि: रु. 10,00,000/-
3. ईएमपी राशि 17-03-2026 को अर्थात् 5 बजे तक या उससे पहले जमा करें।

बिक्री के विस्तृत विवरणों और शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत श्रेणदाता की वेबसाइट पर दिए गए लिंक <https://www.cholamandalam.com> और www.auctionfocus.in देखें।

* श्रेण समझौते के अनुसार लागू आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या प्राप्ति की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि।

सम्पत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रदात/अधिकारी के पदाधिकारी देया पाराशर - kayaparasar@chola1.murugappa.com फोन नंबर 82181 26001 पर सम्पर्क करें। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत आसिधियों के संबंध में कोई श्रेणदाता नहीं है।

दिनांक: 09-02-2026 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: देवरिया वास्तु चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2343127.

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जो 31-03-2025 & All other 6 months tenure gold loans up to 30-06-2025 and EMI gold loans up to 31.12.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.12.2025 are also included in this auction. गिरवी रखे सोने के गहने जिन्हें बुझाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक बुझाया नहीं गया है उनकी नीलामी।

Auction Date: 26.02.2026 BHOJPUR DISTRICT - ARRAH: 4454000669, 4454000674, 4454000696, 4454000707, 4454000717, 4454000726, 4454000730, 4454000732, 4454000735, 4454000738, 4454000741, 4454000748, 4454000751, 4454000754, 4454000757, 4454000760, 4454000763, 4454000766, 4454000769, 4454000772, 4454000775, 4454000778, 4454000781, 4454000784, 4454000787, 4454000790, 4454000793, 4454000796, 4454000799, 4454000802, 4454000805, 4454000808, 4454000811, 4454000814, 4454000817, 4454000820, 4454000823, 4454000826, 4454000829, 4454000832, 4454000835, 4454000838, 4454000841, 4454000844, 4454000847, 4454000850, 4454000853, 4454000856, 4454000859, 4454000862, 4454000865, 4454000868, 4454000871, 4454000874, 4454000877, 4454000880, 4454000883, 4454000886, 4454000889, 4454000892, 4454000895, 4454000898, 4454000901, 4454000904, 4454000907, 4454000910, 4454000913, 4454000916, 4454000919, 4454000922, 4454000925, 4454000928, 4454000931, 4454000934, 4454000937, 4454000940, 4454000943, 4454000946, 4454000949, 4454000952, 4454000955, 4454000958, 4454000961, 4454000964, 4454000967, 4454000970, 4454000973, 4454000976, 4454000979, 4454000982, 4454000985, 4454000988, 4454000991, 4454000994, 4454000997, 4454001000, 4454001003, 4454001006, 4454001009, 4454001012, 4454001015, 4454001018, 4454001021, 4454001024, 4454001027, 4454001030, 4454001033, 4454001036, 4454001039, 4454001042, 4454001045, 4454001048, 4454001051, 4454001054, 4454001057, 4454001060, 4454001063, 4454001066, 4454001069, 4454001072, 4454001075, 4454001078, 4454001081, 4454001084, 4454001087, 4454001090, 4454001093, 4454001096, 4454001099, 4454001102, 4454001105, 4454001108, 4454001111, 4454001114, 4454001117, 4454001120, 4454001123, 4454001126, 4454001129, 4454001132, 4454001135, 4454001138, 4454001141, 4454001144, 4454001147, 4454001150, 4454001153, 4454001156, 4454001159, 4454001162, 4454001165, 4454001168, 4454001171, 4454001174, 4454001177, 4454001180, 4454001183, 4454001186, 4454001189, 4454001192, 4454001195, 4454001198, 4454001201, 4454001204, 4454001207, 4454001210, 4454001213, 4454001216, 4454001219, 4454001222, 4454001225, 4454001228, 4454001231, 4454001234, 4454001237, 4454001240, 4454001243, 4454001246, 4454001249, 4454001252, 4454001255, 4454001258, 4454001261, 4454001264, 4454001267, 4454001270, 4454001273, 4454001276, 4454001279, 4454001282, 4454001285, 4454001288, 4454001291, 4454001294, 4454001297, 4454001300, 4454001303, 4454001306, 4454001309, 4454001312, 4454001315, 4454001318, 4454001321, 4454001324, 4454001327, 4454001330, 4454001333, 4454001336, 4454001339, 4454001342, 4454001345, 4454001348, 4454001351, 4454001354, 4454001357, 4454001360, 4454001363, 4454001366, 4454001369, 4454001372, 4454001375, 4454001378, 4454001381, 4454001384, 4454001387, 4454001390, 4454001393, 4454001396, 4454001399, 4454001402, 4454001405, 4454001408, 4454001411, 4454001414, 4454001417, 4454001420, 4454001423, 4454001426, 4454001429, 4454001432, 4454001435, 4454001438, 4454001441, 4454001444, 4454001447, 4454001450, 4454001453, 4454001456, 4454001459, 4454001462, 4454001465, 4454001468, 4454001471, 4454001474, 4454001477, 4454001480, 4454001483, 4454001486, 4454001489, 4454001492, 4454001495, 4454001498, 4454001501, 4454001504, 4454001507, 4454001510, 4454001513, 4454001516, 4454001519, 4454001522, 4454001525, 4454001528, 4454001531, 4454001534, 4454001537, 4454001540, 4454001543, 4454001546, 4454001549, 4454001552, 4454001555, 4454001558, 4454001561, 4454001564, 4454001567, 4454001570, 4454001573, 4454001576, 4454001579, 4454001582, 4454001585, 4454001588, 4454001591, 4454001594, 4454001597, 4454001600, 4454001603, 4454001606, 4454001609, 4454001612, 4454001615, 4454001618, 4454001621, 4454001624, 4454001627, 4454001630, 4454001633, 4454001636, 4454001639, 4454001642, 4454001645, 4454001648, 4454001651, 4454001654, 4454001657, 4454001660, 4454001663, 4454001666, 4454001669, 4454001672, 4454001675, 4454001678, 4454001681, 4454001684, 4454001687, 4454001690, 4454001693, 4454001696, 445400